



### कोविड-19 महामारी के दौरान ब्रैम्पटन में ईस्टर वीकेंड 2021

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (25 मार्च, 2021) – इस वर्ष, गुड फ्राइडे (Good Friday), शुक्रवार, 2 अप्रैल को और ईस्टर मंडे (Easter Monday), सोमवार, 5 अप्रैल को है।

फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Fire and Emergency Services), ट्रैफिक सर्विसिज (Traffic Services), बाइ-लॉ एन्फोर्समेंट (By-Law Enforcement), रोड ऑपरेशंस (Road Operations), और सिक्योरिटी सर्विसिज (Security Services) सहित, सभी महत्वपूर्ण सेवाएं, हमारी कम्युनिटी की मदद के लिए पहले की तरह ही जारी रहेंगी।

किसी भी सवाल के लिए निवासी, 311 पर या 905.874.2000 (ब्रैम्पटन के बाहर से) पर फोन कर सकते हैं, ब्रैम्पटन 311 (Brampton 311) ऐप (जो ऐप स्टोर (App Store) या Google Play (गूगल प्ले) पर उपलब्ध है) का उपयोग कर सकते हैं, [www.311brampton.ca](http://www.311brampton.ca) पर जा सकते हैं या [311@brampton.ca](mailto:311@brampton.ca) पर ईमेल कर सकते हैं। हम, कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित सवाल सहित, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन या रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के किसी भी मुद्दों के लिए, 24/7 उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए [www.brampton.ca/COVID19](http://www.brampton.ca/COVID19) पर जाएं।

#### ब्रैम्पटन ट्रांज़िट

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), 2 से 5 अप्रैल तक निम्नलिखित सर्विस लेवल्स के अंदर चलेगा।

#### शुक्रवार, 2 अप्रैल (गुड फ्राइडे)

रविवार/छुट्टी वाले शेड्यूल पर चलेगा।

टर्मिनल्स पर ग्राहक सेवा (Customer Service) काउंटर बंद हैं। सवारियां, सहायता के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क केंद्र (Contact Centre) को संपर्क कर सकती हैं।

#### शनिवार, 3 अप्रैल

शनिवार वाले शेड्यूल पर चलेगा।

टर्मिनल्स में ग्राहक सेवा काउंटर, नियमित घंटों के दौरान खुले रहेंगे। सवारियां, सहायता के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक संपर्क केंद्र को संपर्क कर सकती हैं।

#### रविवार, 4 अप्रैल (ईस्टर मंडे)

रविवार/छुट्टी वाले शेड्यूल पर चलेगा।

टर्मिनल्स पर ग्राहक सेवा काउंटर बंद हैं। सवारियां, सहायता के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क केंद्र को संपर्क कर सकती हैं।



सोमवार, 5 अप्रैल (ईस्टर मंडे)

नियमित कार्यदिवस वाले शेड्यूल पर चलेगा।

टर्मिनल्स में ग्राहक सेवा काउंटर, नियमित घंटों के दौरान खुले रहेंगे। सवारियां, सहायता के लिए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क केंद्र को संपर्क कर सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क केंद्र को 905.874.2999 पर फोन करें या [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) पर जाएं।

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

सिटी का, सवारियों से अनुरोध है कि वे जितना अधिक से अधिक संभव हो सके, मास्क पहनकर भी, बसों में, टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर लगातार शारीरिक दूरी कायम रखें। सवारियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें। यदि आप बीमार हैं, तो कृपया ट्रांज़िट पर सफर करने से परहेज करें, अपनी निकटतम कोविड-19 असेसमेंट साइट पर टेस्ट करवाएं और पब्लिक हेल्थ के निर्देशों का पालन करें।

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से, सवारियों को याद दिलाया जाता है कि बसों पर और टर्मिनल्स पर, आपके नाक, मुंह और ठोड़ी को ढकने वाले टाइट-फिटिंग वाले गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) जरूरी हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है।

नियमित अपडेट्स के लिए [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) पर जाएं अथवा Twitter पर [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

### **ब्रैम्पटन रेक्रिएशन**

#### **बनी एगसाइटमेंट**

इस ईस्टर, बनी एगसाइटमेंट (Bunny EGGScitement) के सुरक्षित एडिशन के साथ मज़ेदार गतिविधियां करें! क्राफ्ट किट्स लें और रंगदार गमला बनाने के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल का अनुसरण करें, वर्चुअल अंडा खोज गेम में हिस्सा लें और 29 मार्च से शुरू करते हुए, रंग भरने की गतिविधियां डाउनलोड करें।



बिना संपर्क वाला, कर्बसाइड क्राफ्ट किट पिक-अप, कैसी कैम्पबेल कम्युनिटी सेंटर (Cassie Campbell Community Centre), चिंग्कूज़ी पार्क स्की चैलेट (Chinguacousy Park Ski Chalet), गोर मेडोज कम्युनिटी सेंटर (Gore Meadows Community Centre) और साउथ फ्लेचर्स स्पोर्ट्सप्लेक्स (South Fletcher's Sportsplex) में, 31 मार्च और 1 अप्रैल को दोपहर बाद 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। कृपया पिक-अप के दौरान साइट पर लगे साइन बोर्डों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। क्राफ्ट किटें, पहले आएंगे, पहले पाएं के आधार पर उपलब्ध हैं। सामान समाप्त होने तक, एक परिवार को एक किट ही मिलेगी।

बनी एगसाइटमेंट गतिविधियों का मज़ा लेने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) पर जाएं।

### रेक एट होम

ऑनलाइन फिटनेस और क्राफ्ट ट्यूटोरियल्स के साथ घर में रहते हुए ही क्रियाशील और दूसरों के साथ जुड़े रहें। पूरे शरीर की एक्सरसाइज करने का प्रयास करें, सीखें कि ओरिगेमी हार्ट कैसे बनाते हैं, अपने सुंदर लिखावट (कैलिग्राफी) कौशलों का अभ्यास करें। [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) पर कई प्रकार की रेक एट होम (Rec At Home) गतिविधियों तक पहुंच प्राप्त करें।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के रेक्रिएशन सेंटर बंद हैं। प्रोविंसियल कोविड-19 लॉकडाउन संबंधी उपायों का पालन करने के लिए, व्यक्तिगत, इंस्ट्रक्टर के नेतृत्व वाले रेक्रिएशन प्रोग्राम और सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। वर्चुअल और आउटडोर रेक्रिएशन प्रोग्रामों और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) पर जाएं।

### ब्रैम्पटन लाइब्रेरी

शुक्रवार, 2 अप्रैल (गुड फ्राइडे) को सभी ब्रांच लाइब्रेरियों में इन-ब्रांच और कर्बसाइड पिकअप (पगडंडी के किनारे से वस्तुएं लेना) बंद रहेगा।

हमारी डिजिटल लाइब्रेरी (Digital Library) देखने के लिए किसी भी समय, [ब्रैम्पटन लाइब्रेरी वेबसाइट \(Brampton Library website\)](http://www.brampton.ca/recreation) पर जाएं। यहां आप अपने लाइब्रेरी कार्ड के साथ, डिजिटल ईबुकस, ईऑडियोबुकस, टीवी और मूवी स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन प्रशिक्षण, आर्ट्स और क्राफ्ट्स आदि तक मुफ्त पहुंच प्राप्त करेंगे। [ब्रैम्पटन लाइब्रेरी कार्ड प्राप्त करने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें। \(To obtain a Brampton Library card, please click here.\)](http://www.brampton.ca/recreation) सभी ब्रांच लाइब्रेरियों में 24-घंटे के बाहरी ड्रॉप बॉक्सों के द्वारा, जब चाहें, अपनी सुविधा से चीजें वापस करें।

संपर्क में रहें! [हमारे ईमेल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें \(Subscribe to our email updates\)](http://www.brampton.ca/recreation) और हमें [Facebook](https://www.facebook.com/brampton), [Twitter](https://twitter.com/brampton), और [Instagram](https://www.instagram.com/brampton) पर फॉलो करें।

### ब्रैम्पटन एनिमल सर्विसिज



ब्रैम्पटन एनिमल शेल्टर (Brampton Animal Shelter), गुड फ्राइडे, 2 अप्रैल को, ईस्टर संडे, 4 अप्रैल को और ईस्टर मंडे, 5 अप्रैल को बंद रहेगा। शेल्टर, शनिवार, 3 अप्रैल को, केवल मुलाकात बुक करने के द्वारा ही, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा।

एनिमल कंट्रोल (Animal Control), सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक और शनिवार तथा रविवार और छुट्टियों वाले दिनों को, सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक सड़क पर मौजूद होगा। वे केवल निम्नलिखित कामों के लिए कॉल्स का जवाब देगा:

- बीमार/जख्मी/हिंसक घरेलू जानवर या जंगली जानवर का पिक अप
- हिंसक जानवर
- घर से बाहर निकले कुत्ते को बचाना
- कुत्ते के काटने की जांच
- बांधकर रखे आवारा कुत्तों का पिक अप
- मरे हुए जानवरों का पिक अप

इन घंटों के बाद, एनिमल कंट्रोल केवल एमरजेंसी कॉल्स का ही जवाब देगा।

### ईस्टर वीकेंड के लिए पील पब्लिक हेल्थ के रिमाइंडर

केवल उन लोगों के साथ इकट्ठे होकर ईस्टर छुट्टी पर एक-दूसरे की देखभाल करें, जिनके साथ आप रहते हैं। हालांकि वैक्सीन पेश की जा रही है, फिर भी हमारे लिए जरूरी है कि अपनी रक्षा करना न भूलें और पब्लिक हेल्थ की सलाह का पालन करना जारी रखें। ये उपाय, वायरस से हमारी बेहतर रक्षा करेंगे। परिवार के उन सदस्यों और उन दोस्तों के लिए, जो आपके घर से बाहर रहते हैं, फोटो लें, उनके साथ जुड़े रहने के लिए वर्चुअल कॉल्स का प्रबंध करें और शारीरिक दूरी कायम रखें। वायरस के जोखिम को घटाने के लिए अपने पूजा स्थल से कहें कि वे आपको वर्चुअल समागमों के विकल्प दें। यदि आपके लिए व्यक्तिगत रूप से इकट्ठे होना आवश्यक हो, तो कृपया धार्मिक रस्मों के लिए एकत्र होने की सीमाओं का पालन करें।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)

-30-

रीजन ऑफ पील का मीडिया संपर्क

ऐश्ले हॉकिन्स (Ashleigh Hawkins)

कम्युनिकेशन्स स्पेशलिस्ट – पब्लिक हेल्थ

रीजन ऑफ पील

416.818.4421 | [ashleigh.hawkins@peelregion.ca](mailto:ashleigh.hawkins@peelregion.ca)